



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013—ज्येष्ठ 31, शक 1935

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2013

क्र. ई-5-634-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, भाप्रसे, आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी मिशन बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को दिनांक 27 मई 2013 से 7 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26, मई एवं 8, 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति की प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी, भाप्रसे, आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन

संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी मिशन बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 27 मई 2013

क्र. ई-1-147-2013-5-एक.—भारत सरकार में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर डॉ. अमर सिंह, भाप्रसे (1981) को अस्थायी रूप से, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. अमर सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित अध्यक्ष, राजस्व मंडल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 28 मई 2013

क्र. ई.-1-138-2013-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा भाप्रसे के वर्ष 2012 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। उक्त पदस्थापना आदेश में एतद्वारा संशोधन कर निम्न अधिकारियों की पदस्थापना में खाना (3) के स्थान पर खाना (4) अनुसार पदस्थापना की जाती है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	सहायक कलेक्टर के पद पर की गई पदस्थापना का जिला	संशोधित जिला जिसमें सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है।
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पंकज जैन	राजगढ़	खण्डवा
2	सुश्री निधि निवेदिता	उज्जैन	रीवा
3	श्री अनुराग वर्मा	इन्दौर	सिंगरौली
4	श्री राजीव रंजन मीणा	सिंगरौली	इन्दौर

क्र. ई-5-479-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 11 से 22 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सलीना सिंह भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपाल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रभांशु कमल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपाल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सलीना सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-574-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पंकज राग, आयएस., आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा न्यासी सचिव भारत भवन को दिनांक 27 मई से 4 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 एवं 26 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री पंकज राग की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अशोक शाह, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज राग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा न्यासी सचिव भारत भवन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पंकज राग द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा न्यासी सचिव भारत भवन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज राग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज राग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-822-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री योगेन्द्र शर्मा, आयएस., कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 28 मई से 7 जून 2013 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री योगेन्द्र शर्मा की अवकाश अवधि में श्री पी. एस. जाटव, अपर कलेक्टर, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सागर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री योगेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. एस. जाटव, कलेक्टर, जिला सागर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री योगेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-894-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. अशोक कुमार भार्गव, आयएस., कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 13 से 24 मई 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 एवं 26 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) डॉ. अशोक कुमार भार्गव की अवकाश अवधि में श्री सभाजीत यादव, राप्रसे, अपर कलेक्टर, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. अशोक कुमार भार्गव द्वारा कलेक्टर, जिला शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सभाजीत यादव, कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. अशोक कुमार भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक कुमार भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-888-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, अनुविभागीय अधिकारी, बीना, जिला सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2013 द्वारा 22 अप्रैल से 6 मई 2013 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 26 अप्रैल से 10 मई 2013 तक, पन्द्रह दिन का पुनरीक्षित/संशोधित पितृत्व अवकाश कार्यान्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 29 मई 2013

क्र. ई-5-674-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 15 से 24 जुलाई 2013 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 30 मई 2013

क्र. ई-5-425-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज गोयल, आयएस., प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 3 से 7 जून 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 2 एवं 8, 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-577-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक शाह, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अशोक शाह की अवकाश अवधि में खेल एवं युवक कल्याण विभाग का प्रभार श्री मनीष सिंह, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईसीयू) तथा संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा प्रबंध संचालक, लघु सिंचाई एवं कृषि को तथा अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण का प्रभार श्री एम. मोहनराव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण के पद पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक शाह द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष सिंह, खेल एवं युवक कल्याण विभाग एवं श्री एम. मोहनराव अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-694-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रघुवीर श्रीवास्तव, आयएस., आयुक्त, पंचायती राज, भोपाल को दिनांक 17 से 29 जून 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 30 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री रघुवीर श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा, भाप्रसे, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायती राज, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रघुवीर श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, पंचायती राज, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रघुवीर श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुवीर श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-731-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल को दिनांक 31 मई से 7 जून 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 31 मई 2013

क्र. ई-5-483-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. सिंह, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 31 मई से 7 जून 2013 तक, आठ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री के. के. सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. के. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम जुलानिया उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-768-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री संदीप यादव, आयएस., कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9, 15 एवं 16 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री संदीप यादव की अवकाश अवधि में सुश्री प्रीति मैथिल, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला गुना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संदीप यादव द्वारा कलेक्टर, जिला गुना का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री प्रीति मैथिल, कलेक्टर, जिला गुना के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 1 जून 2013

क्र. ई-1-141-2013-5-एक.—(1) श्री एस. पी. एस. परिहार, भाप्रसे (1986), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती हैं।

क्र. ई-1-157-2013-5-एक.—(1) श्री आशीष उपाध्याय, भाप्रसे (1989) वि. क. अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग घोषित किया जाता है।

(2) श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), आयुक्त, बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग पदस्थ किया जाता है।

(3) श्री शोभित जैन, भाप्रसे (2000) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, संचालक, बजट का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 5 जून 2013

क्र. ई-5-822-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री योगेन्द्र शर्मा, आयएस., कलेक्टर, जिला सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मई 2013 द्वारा दिनांक 28 मई से 7 जून 2013 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 29 मई से 10 जून 2013 तक, तेरह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-818-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एन. एस. भटनागर, आयएस., अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग को दिनांक 9 से 18 अप्रैल 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश कार्यान्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 एवं 21 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. भटनागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एन. एस. भटनागर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-659-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एस. के. वेद, आयएस., आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 21 से 29 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एस. के. वेद की अवकाश अवधि में श्री अजीत कुमार, भाप्रसे, अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. वेद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आबकारी, आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. के. वेद द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत कुमार, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-819-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदार शर्मा, आयएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 24 से 29 जून 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री केदार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री केदार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-416-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सुरेश, आयएस., आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 2 से 10 मई 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-785-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2013 द्वारा दिनांक 3 से 10 जून 2013 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिन का पुनरीक्षित एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 15 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-558-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद कुमार, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2013 द्वारा दिनांक 18 फरवरी से 12 मार्च 2013 तक, तेईस दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 18 फरवरी से 11 मार्च 2013 तक, बाईस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-837-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएस., अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को दिनांक 24 से 26 मार्च 2013 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-649-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रश्मि अरूण शर्मा, आयएस., आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इस विभाग के

समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 द्वारा दिनांक 20 से 23 मई 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 24 मई 2013 तक पांच दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 एवं 25 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-857-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री आईरिन सिंथिया, जे. पी., आयएस., तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को पूर्व में स्वीकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 30 जून 2013 तक, तीस दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आर. परशुराम, मुख्य सचिव.**

भोपाल, दिनांक 5 जून 2013

क्र. ई-5-709-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2013 द्वारा दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 11, 12 एवं 18, 19 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 14 से 17 मई 2013 तक, चार दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 11, 12, 13 एवं 18, 19 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**विद्या भोंसले, अवर सचिव "कार्मिक".**

## जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

### संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जून 2013

क्र.-एफ-02(व)01-2013-तीन.—जेल, विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई 2013 द्वारा उप जेल, डबरा के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्ति की गई है। उक्त अधिसूचना में उप जेल डबरा, जिला मुरैना अंकित हो गया है, के स्थान पर उप जेल, डबरा, जिला ग्वालियर पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**दशरथ कुमार, उपसचिव.**

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2013

क्र. एफ 1(ए)400-1988-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2013 द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस सुधार/सामुदायिक पुलिसिंग), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश 11, 12 18 एवं 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था।

(2) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, द्वारा दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश, का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

(3) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस सुधार/सामुदायिक पुलिसिंग), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पाँच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 8, 9, 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(4) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री मनोज केडिया, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (पुलिस सुधार/सामुदायिक पुलिसिंग), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(5) अवकाश से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार/सामुदायिक पुलिसिंग), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(6) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (पुलिस सुधार/सामुदायिक पुलिसिंग), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 4 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(7) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(8) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ 1(ए)26-1992-ब-2-दो.—श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर. एन. डी. एवं पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 2, 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत सपरिवार श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- |    |                      |   |        |
|----|----------------------|---|--------|
| 1. | श्री एम. आर. आसुदानी | — | स्वयं  |
| 2. | श्रीमती आरती आसुदानी | — | पत्नी  |
| 3. | कु. आकांक्षा         | — | पुत्री |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर. एन. डी. एवं पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर. एन. डी. एवं पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर. एन. डी. एवं पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)265-86-ब-2-दो.—श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पाँच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 8, 9, 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा की पात्रता के तहत “जम्मू कश्मीर (लेह)-नूब्रा वेली” की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- |    |                      |   |        |
|----|----------------------|---|--------|
| 1. | श्री सरबजीत सिंह     | — | स्वयं  |
| 2. | श्रीमती सिमरीना सिंह | — | पत्नी  |
| 3. | कु. अनंतिका सिंह     | — | पुत्री |
| 4. | कु. अमानी सिंह       | — | पुत्री |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.



क्र. एफ 1(ए)85-1999-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मई 2013 द्वारा श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 27 मई से 7 जून 2013 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश 25, 26 मई एवं 8, 9 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था।

(2) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, द्वारा दिनांक 27 मई से 7 जून 2013 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश, का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

(3) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 10 से 22 जून 2013 तक, तेरह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 8, 9 एवं 23 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(4) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन, रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(5) अवकाश से लौटने पर श्री वेदप्रकाश शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(6) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 4 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(7) अवकाशकाल में श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(8) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)399-1988-ब-2-दो.—श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, (शिकायत व मानव अधिकार), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पाँच दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 8, 9, 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एम. के. मुगदल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (शिकायत व मानव अधिकार), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)150-1990-ब-2-दो.—श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, जेल महानिरीक्षक एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 8, 9, 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत सपरिवार “कुर्ग (कर्नाटका)” की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

- |                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| 1. श्री संजय व्ही. माने | — | स्वयं  |
| 2. श्रीमती शर्मिला माने | — | पत्नी  |
| 3. कु. पल्लवी माने      | — | पुत्री |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न जेल महानिरीक्षक एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 1(ए)94-1999-ब-2-दो.—श्री उमेश जोगा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा रेंज छिन्दवाड़ा को दिनांक 10 से 22 जून 2013 तक, कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 8, 9 एवं 23 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री उमेश जोगा, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छिन्दवाड़ा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अस्थायी, रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा रेंज छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

फा. क्र. 1(अ)-3-03-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन श्री प्रशांत सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 3 मई 2013 के आलोक में, उनका अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर के पद से त्यागपत्र दिनांक 3 मई 2013 से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 6/7 जून 2013

फा. क्र. 17(ई)-83-03-इक्कीस-ब(एक) 2494-013.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना

फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाए, अर्थात् :—

### सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"23.	दमोह	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 23-ए पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर)."

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-2494-013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1) dated 16<sup>th</sup> September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24<sup>th</sup> September, 2010, namely :—

### AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 23 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

### TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"23.	Damoh	IIIrd Additional Sessions Judge, Damoh.	All Electricity Area of Civil District Damoh (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 23-A)."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 5 जून 2013

फा. क्र. 1(बी)35-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2004 के द्वारा श्री हीरालाल राठौर, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील जावरा जिला रतलाम को नियुक्त किया गया था.

श्री हीरालाल राठौर, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील जावरा जिला रतलाम की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 4/7 जून 2013

फा. क्र. 1(सी)27-2008-एट्रोसीटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अगस्त 2011 के द्वारा श्रीमती सुमन जैन, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक, जिला दमोह नियुक्त किया गया था.

श्रीमती सुमन जैन, विशेष लोक अभियोजक, जिला दमोह की आयु दिनांक 30 नवम्बर 2012 को 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

### आदेश

क्र. एफ 67-129-10-तीन-553.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, बाड़ी, जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री मुन्नी भगवानदास चौहान अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् बाड़ी जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन के पत्र क्र. 261/स्था.निर्वा./10, दिनांक 2 फरवरी 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मुन्नी भगवानदास चौहान द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मुन्नी भगवानदास चौहान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 फरवरी 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के माध्यम से दिनांक 10 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

**सुश्री मुन्नी भगवानदास चौहान** को नोटिस दिनांक 10 मार्च 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 25 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। अभ्यर्थी ने एक अभ्यावेदन दिनांक निरंक जो कि आयोग कार्यालय में 18 मार्च, 2010 को प्राप्त हुआ, प्रस्तुत किया, जिसे अभिमत हेतु कलेक्टर रायसेन को दिनांक 26 मार्च 2010 को प्रेषित किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन ने अभिमत दिया कि—“परीक्षण में पाया गया कि उनके द्वारा व्यय लेखा निर्धारित दिनांक 16 जनवरी 2010 को नहीं किया जाकर दिनांक 11 फरवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया है, विलंब से प्रस्तुत करने का कारण स्वयं के अस्वस्थ्य होना बताया गया है, जिसके प्रमाण के आधार पर डॉक्टर के मेडीकल सर्टिफिकेट की छायाप्रति अभ्यावेदन में लगी है।”

उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 3 अप्रैल, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री मुन्नी भगवानदास चौहान** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् बाडी, जिला रायसेन** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( **जी. पी. श्रीवास्तव** )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कुलाधिपति,  
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,  
चित्रकूट

राजभवन, दिनांक 14 जून 2013

क्र. 650-13-रा.स.-यू.ए.1.—मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, विभाग द्वारा दिनांक 14-6-10 को अधिसूचना क्रमांक एफ-58-10-अड़तीस-3 जारी कर तत्काल प्रभाव से महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 44-क के प्रावधान एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रभावशील किए गए थे। कालांतर में दिनांक 13 जून 2011 एवं दिनांक 7 जून 2012 को अधिसूचना जारी कर इस अवधि में एक-एक वर्ष की और वृद्धि की गई। अधिनियम के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय में अधिसूचना के प्रभावशील रहने की अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि दिनांक 13 जून 2013 को समाप्त हो गई है।

2. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 24 की उपधारा (12) के प्रावधानान्तर्गत मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट एतद्वारा प्रो. अरूप कुमार गुप्ता, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट को नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य संपादित करने के लिये नाम-निर्देशित करता हूँ।

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 30 मई 2013

क्र. मण्डी निर्वाचन-13.—मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति, देवास के लिये माननीय श्री तुकोजीराव पंवार, मंत्री, पर्यटन, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश शासन की ओर से श्री बद्रीलाल जायसवाल, निवासी बोरखेडी फत्तु, तहसील एवं जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है।

महेश अग्रवाल, कलेक्टर.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### प्रशासन अकादमी

#### (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

#### विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 27 मई 2013

क्र. 3626-अका-2013-विपप्र.—प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 5 अगस्त, 2013 से आयुक्त, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल एवं नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:—

स. क्र. (1)	प्रश्न-पत्र का विषय (2)	समय (3)
<b>दिनांक 5 अगस्त, 2013</b>		
1	प्रश्न-पत्र पहला— प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-बी.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2	प्रश्न-पत्र पहला—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-सी.	—तदैव—
3	प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
4	प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	—तदैव—
5	प्रश्न-पत्र पहला —सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,	—तदैव—
59	प्रश्न-पत्र—विद्युत् संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
6	प्रश्न-पत्र दूसरा—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
7	प्रश्न-पत्र दूसरा— सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
8	प्रश्न-पत्र —समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
60	प्रश्न-पत्र—भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
9	प्रश्न-पत्र पहला —प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

(1)

(2)

(3)

## दिनांक 6 अगस्त, 2013

- 10 प्रश्न-पत्र—सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
- 11 प्रश्न-पत्र—पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की (पुस्तकों सहित) —तदैव—
- 12 प्रश्न-पत्र—उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 13 प्रश्न-पत्र—खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 14 प्रश्न-पत्र प्रथम—लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये —तदैव—
- 61 प्रश्न-पत्र—विद्युत् संस्थापनाएं—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 15 प्रश्न-पत्र—पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
- 16 प्रश्न-पत्र—प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 17 प्रश्न-पत्र तीसरा— बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. —तदैव—
- 18 प्रश्न-पत्र—समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 19 प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 62 प्रश्न-पत्र—लेखा व स्थापना—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—

## दिनांक 7 अगस्त, 2013

- 20 प्रश्न-पत्र तीसरा— प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
- 21 प्रश्न-पत्र—पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 22 प्रथम—वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये. —तदैव—
- 23 प्रश्न-पत्र पहला —प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये. —तदैव—

(1)	(2)	(3)
24 प्रश्न-पत्र— “व्यवहारिक परीक्षा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये.		प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
63 प्रश्न-पत्र—स्विच गेयर तथा संरक्षण-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—
25 प्रश्न-पत्र—कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.		दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26 प्रश्न-पत्र प्रथम— दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—
27 प्रश्न-पत्र—“पुलिस शाखा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)		—तदैव—
28 प्रश्न-पत्र दूसरा— सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.		—तदैव—
29 प्रश्न-पत्र तीसरा—सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.		—तदैव—
30 प्रश्न-पत्र—स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—
31 प्रश्न-पत्र चौथा —सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.		—तदैव—
32 प्रश्न-पत्र—समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—
64 प्रश्न-पत्र—विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-ऑर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—

#### दिनांक 8 अगस्त, 2013

33 प्रश्न-पत्र प्रथम—लेखा (बिना पुस्तकों के) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.		प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
34 प्रश्न-पत्र प्रथम —लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—
35 प्रश्न-पत्र प्रथम —लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—
36 प्रश्न-पत्र—“न्यायिक शाखा” गृह (पुलिस) विभाग अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)		—तदैव—
37 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—
38 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित)—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—

(1)	(2)	(3)
39	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित)—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
40	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
41	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
66	प्रश्न-पत्र प्रथम— लेखा (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
42	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
44	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
67	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

#### दिनांक 12 अगस्त, 2013

45	प्रश्न-पत्र —लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
46	प्रश्न-पत्र प्रथम— लेखा के भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
47	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48	प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया प्रथम (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
49	प्रश्न-पत्र द्वितीय—मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
50	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.	—तदैव—
65	प्रश्न-पत्र दूसरा— दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना) सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
68	प्रश्न-पत्र तृतीय— महिला एवं बाल कल्याण—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
51	प्रश्न-पत्र —लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.



(1)	(2)	(3)
52	प्रश्न-पत्र—लेखा प्रथम भाग-2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
53	प्रश्न-पत्र—सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54	प्रश्न पत्र तृतीय— प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—तदैव—
55	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
56	प्रश्न-पत्र—लेखा तथा प्रक्रिया -द्वितीय (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
57	प्रश्न-पत्र तृतीय—अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
69	प्रश्न-पत्रचतुर्थ—पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

#### दिनांक 13 अगस्त, 2013

58	हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक.
----	--	---

#### नोट :—

- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
- सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरे.
- सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स.-जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को प्रशासन अकादमी, आर. सी. वी. पी. नरोन्ही, म. प्र., भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 अगस्त 2013 तक भेजेंगे.
- जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
- परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधी है. एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोस्टक में (प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

क्र. एफ 01-01-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, देवास जिले की तहसील बागली की सीमाएं, उसमें से, तहसील बागली के राजस्व वृत्त उदयनगर के पटवारी हल्का क्रमांक 38 से 81 (कुल 44 पटवारी हल्के) अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है, तथा राजस्व वृत्त उदयनगर के पटवारी हल्का क्रमांक 38 से 81 (कुल 44 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील उदयनगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 44 पटवारी हल्के होंगे तथा 99 ग्राम होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय उदयनगर में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आर. के. चतुर्वेदी**, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

पृ. क्र. एफ 01-01-2013-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ 01-01-2013-सात-शा. 6, दिनांक 17 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आर. के. चतुर्वेदी**, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th June 2013

No.F-1-1-2013-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Bagli Tehsil of district Dewas from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 38 to 81 (total 44 Halkas) of Revenue Circle, Udaynagar of Tehsil Bagli and creates a new Tehsil Udaynagar comprising of Patwari Halka No. 38 to 81 (Total 44 Halkas) of Revenue Circle, Udaynagar, in which the total Patwari Halkas shall be 44 and Village shall be 99. The headquarter of the said Tehsil shall be at Udaynagar.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
**R. K. CHATURVEDI**, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

एफ. क्र. 15-25-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

### अनुसूची

#### तहसील : शुजालपुर

#### जिला : शाजापुर

क्र.	ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1	01. मूल ग्राम—अवन्तिपुरा 02. नवीन ग्राम—गिगलाखेड़ी प.ह.नं. 60.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला शाजापुर.
2	01. मूल ग्राम—मगरोला 02. नवीन ग्राम—मायापुर प.ह.नं. 08.	
3	01. मूल ग्राम—रायपुर 02. नवीन ग्राम—खेड़ा बोल्दा प.ह.नं. 07.	

#### तहसील : शाजापुर

#### जिला : शाजापुर

4	01. मूल ग्राम—पिन्दोनिया 02. नवीन ग्राम—खेड़ा पिन्दोनिया प.ह.नं. 42.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला शाजापुर.
5	01. मूल ग्राम—खेड़ा 02. नवीन ग्राम—खेड़ा पहाड़ प.ह.नं. 40.	

#### तहसील : मोमन बड़ोदिया

#### जिला : शाजापुर

6	01. मूल ग्राम—दुधाना 02. नवीन ग्राम—चक दुधाना प.ह.नं. 27.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला शाजापुर.
7	01. मूल ग्राम—मोहना 02. नवीन ग्राम—बनबोर प.ह.नं. 03.	

(1)	(2)	(3)
8	01. मूल ग्राम—चौमा	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—चौमा डाक बंगला	(नियमित)
	03. नवीन ग्राम—नया चौमा	जिला शाजापुर.
	प.ह.नं. 06.	

**तहसील : सुसनेर****जिला : शाजापुर**

9	01. मूल ग्राम—सोयतखुर्द	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—अमानपुरा	(नियमित) जिला शाजापुर.
	03. नवीन ग्राम—बिकपुरा	
	प.ह.नं. 11.	

**तहसील : कालापीपल****जिला : शाजापुर**

10	01. मूल ग्राम—बेहरावल	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—सुरतीपुरा	(नियमित) जिला शाजापुर.
	प.ह.नं. 14.	

**तहसील : आगर****जिला : शाजापुर**

11	01. मूल ग्राम—बाजना	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—बाजना का खेड़ा	(नियमित)
	प.ह.नं. 28.	जिला शाजापुर.

12	01. मूल ग्राम—फतेहपुर मेढकी	
	02. नवीन ग्राम—मानाखेरी	
	प.ह.नं. 28.	

13	01. मूल ग्राम—हड़ाई	
	02. नवीन ग्राम—कबीर खेड़ा	
	प.ह.नं. 13.	

14	01. मूल ग्राम—पालड़ा	
	02. नवीन ग्राम—सुल्तानपुरा	
	03. नवीन ग्राम—बुढ़ाडूंगर (लाला का खेड़ा)	
	प.ह.नं. 22.	

**तहसील : गुलाना****जिला : शाजापुर**

15	01. मूल ग्राम—सुन्दरसी	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—भेरूपुरा	(नियमित)
	03. नवीन ग्राम—रतनपुरा	जिला शाजापुर.
	04. नवीन ग्राम—डूंगरपुरा	
	05. नवीन ग्राम—कल्याणपुरा	
	06. नवीन ग्राम—हापाखेड़ा	
	प.ह.नं. 34.	

(1)	(2)	(3)
<b>तहसील : बड़ोद</b>		<b>जिला : शाजापुर</b>

16	01. मूल ग्राम—बरखेड़ी बड़ोद	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—बरखेड़ी खुर्द	(नियमित) जिला शाजापुर.
	प.ह.नं. 09.	

17	01. मूल ग्राम—खेड़ा नरेला	
	02. नवीन ग्राम—खेड़ा चौहान	
	प.ह.नं. 13.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. एफ 15-25-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-25-2013-सात-6, दिनांक 12 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th June 2013

F. No. 15-25-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of :—

**SCHEDULE****Tahsil : Shujalpur****District : Shajapur**

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
--------	--------------------------	---

(1)	(2)	(3)
1	01. Org. Vill.—Avantipura	Superintendent of Land
	02. New Vill.—Giglakhedi	Records (permanent),
	P.H.No.—60.	District—Shajapur.
2	01. Org. Vill.—Magrola	
	02. New Vill.—Mayapur	
	P.H.No.—08.	
3	01. Org. Vill.—Raipur	
	02. New Vill.—Kheda Bolda	
	P.H.No.—07.	

(1)	(2)	(3)
<b>Tahsil : Shajapur</b>		<b>District : Shajapur</b>
4	01. Org. Vill.—Pindonia 02. New Vill.—Kheda (Pindonia) P.H.No.—42.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.
5	01. Org. Vill.—Kheda 02. New Vill.—Kheda Pahad P.H.No.—40.	

<b>Tahsil : Moman Badodiya</b>		<b>District : Shajapur</b>
6	01. Org. Vill.—Dudhana 02. New Vill.—Chak Duhana P.H.No.—27.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.
7	01. Org. Vill.—Mohna 02. New Vill.—Banbor P.H.No.—03.	
8	01. Org. Vill.—Chauma 02. New Vill.—Chauma Daak 03. New Vill.—Naya Chauma P.H.No.—06.	

<b>Tahsil : Susner</b>		<b>District : Shajapur</b>
9	01. Org. Vill.—Soyatkhard 02. New Vill.—Amanpur 03. New Vill.—Bikpura P.H.No.—11.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.

<b>Tahsil : Kalapipal</b>		<b>District : Shajapur</b>
10	01. Org. Vill.—Behrawal 02. New Vill.—Surtipura P.H.No.—14.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.

<b>Tahsil : Agar</b>		<b>District : Shajapur</b>
11	01. Org. Vill.—Bajana 02. New Vill.—Bajana ka Kheda P.H.No.—28.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.
12	01. Org. Vill.—Fatehpur Mendki 02. New Vill.—Manakheri P.H.No.—28.	
13	01. Org. Vill.—Hadie 02. New Vill.—Kabirkheda P.H.No.—13.	
14	01. Org. Vill.—Palda 02. New Vill.—Sultanpura 03. New Vill.—Budadugar (Lala ka Kheda) P.H.No.—22.	

(1)	(2)	(3)
<b>Tahsil : Gulana</b>		<b>District : Shajapur</b>
15	01. Org. Vill.—Sundersi 02. New Vill.—Bherupura 03. New Vill.—Dungra 04. New Vill.—Kalyanpura 05. New Vill.—Hapakheda P.H.No.—34.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.

<b>Tahsil : Barod</b>		<b>District : Shajapur</b>
16	01. Org. Vill.—Barkhedi Barod 02. New Vill.—Barkhedi Khurd P.H.No.—09.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.
17	01. Org. Vill.—Kheda Narola 02. New Vill.—Kheda Chohan P.H.No.—14.	

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

एफ. क्र. 15-26-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

### अनुसूची

तहसील : उदयपुरा		जिला : रायसेन
क्र.	ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1	01. मूल ग्राम—पड़राई 02. नवीन ग्राम—बूढ़ा प.ह.नं. 69.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला रायसेन.
तहसील : बेगमगंज		जिला : रायसेन
2	01. मूल ग्राम—सुनवाह 02. नवीन ग्राम—गोरखी प.ह.नं. 55.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला रायसेन.

(1) (2) (3)  
तहसील : बाड़ी जिला : रायसेन

- 3 01. मूल ग्राम—गाजीखेड़ी अधीक्षक, भू-अभिलेख,  
02. नवीन ग्राम—सिलगोना टोला (नियमित) जिला रायसेन.  
प.ह.नं. 29.

तहसील : सिलवानी जिला : रायसेन

- 4 01. मूल ग्राम—तीरथपुर अधीक्षक, भू-अभिलेख,  
02. नवीन ग्राम—रम्पुरा दाखली (नियमित) जिला रायसेन.  
प.ह.नं. 02.

तहसील : बाड़ी जिला : रायसेन

- 5 01. मूल ग्राम—शाहपुर अधीक्षक, भू-अभिलेख,  
02. नवीन ग्राम—मादाटोला (नियमित) जिला रायसेन.  
03. नवीन ग्राम—भगवंतपुरा  
प.ह.नं. 13.

- 6 01. मूल ग्राम—मुशकाबाद  
02. नवीन ग्राम—शक्तिटोला  
प.ह.नं. 08.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. एफ 15-26-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-26-2013-सात-6, दिनांक 12 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th June 2013

F. No. 15-26-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

#### SCHEDULE

Tahsil : Udaypura District : Raisen

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
--------	--------------------------	---

- | (1) | (2)   | (3)   |
|-----|---|---|
| 1   | 01. Org. Vill.—Padarai<br>02. New Vill.—Buda<br>P.H.No.—69. | Superintendent of Land Records (Regular),<br>District—Raisen. |

(1) (2) (3)  
Tahsil : Beganganj District : Raisen

- 2 01. Org. Vill.—Sunwaha Superintendent of Land  
02. New Vill.—Gorkhi Records (Regular),  
P.H.No.—55. District—Raisen.

Tahsil : Badi District : Raisen

- 3 01. Org. Vill.—Ganji Khedi Superintendent of Land  
02. New Vill.—Silgona Tola Records (Regular),  
P.H.No.—29. District—Raisen.

Tahsil : Silwani District : Raisen

- 4 01. Org. Vill.—Tirathpur Superintendent of Land  
02. New Vill.—Rampura Dakhli Records (Regular),  
P.H.No.—02. District—Raisen.

Tahsil : Raisen District : Raisen

- 5 01. Org. Vill.—Shahpur Superintendent of Land  
02. New Vill.—Madatola Records (Regular),  
03. New Vill.—Bhagvantpur District—Raisen.  
P.H.No.—13.

- 6 01. Org. Vill.—Mushkabadi  
02. New Vill.—Shaktitola  
P.H.No.—08.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 26), राज्य शासन, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला पिता श्री राम सुफल शुक्ला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इलाहाबाद है. उसकी जन्मतिथि 01 अक्टूबर, 1981 है.

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 60), राज्य शासन, श्री चन्द्रशेखर राठौर पिता श्री नंदराम राठौर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर)

के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला धार है। उसकी जन्मतिथि 27 जनवरी 1985 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 76), राज्य शासन, श्री कमलनाथ जयसिंगपुरे पिता श्री ऊदल प्रसाद को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल है। उसकी जन्मतिथि 07 अगस्त 1985 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव।

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. डी-15-7-2013-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, कृषि विभाग की अधिसूचना 6631-1166-14-(1)-58, दिनांक 18 अप्रैल 1958 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति बागली के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है :—

### स्थान

ग्राम पंचायत पुंजापुरा, तहसील बागली, जिला देवास के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 33/3 रकबा 0.835 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	33/3	0.835
		योग . . 0.835

## जिसकी सीमाएँ

उत्तर में	—	श्री रूपा, नाना पिता श्री हेमा की भूमि।
दक्षिण में	—	आदिम जाति कल्याण विभाग की भूमि।
पूर्व में	—	श्री ग्यारसिया पिता श्री उमराव की भूमि।
पश्चिम में	—	पी. एफ. एवं प्रोजेक्ट फारेस्ट की भूमि।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. डी-15-7-2013-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव।

Bhopal, the 12th June 2013

No.D-15-7-2013-XIV 3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Krishi Upaj Mandi Committee, Bagli has been established by the Agriculture Department's Notification No. 6631-1166-14(1)-58, dated 18th April 1958 shall be sub-market yard namely :—

### PALACE

An area of 0.835 hectare land of bellow mentioned Khasra number 33/3 Gram Panchayat Punjapura in Tehsil Bagli of District Dewas :—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hectare)
1	33/3	0.835
		Total . . 0.835

## BOUNDED BY

- On the North by** — Land of Shri Rupa, Nana S/o Shri Hema.
- On the South by** — Land of Tribal Welfare Department.
- On the East by** — Land of Shri Gyarasiya S/o Shri Umraw.
- On the West by** — Land of P. F. and Forest Project.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. डी-15-7-2013-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 जून 2013 के द्वारा घोषित उप मंडी प्रांगण के सम्बन्ध में मंडी समिति बागली, जिला देवास के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी क्षेत्र घोषित करती है :—

## क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत पुंजापुरा, तहसील बागली, जिला देवास की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) उप मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र.—
  - (1) पुंजापुरा, (2) भिकुपुरा, (3) नीमखेड़ा, (4) रातातलाई, (5) खाजूखेड़ी, (6) डागाडुंगी, (7) अहिरवास खुर्द, (8) बीरूपुरा, (9) मानसिंह पुरा, (10) अहिरवास बुजुर्ग, (11) करड़ी, (12) लक्ष्मीपुरा, (13) लक्ष्मीनगर, (14) चन्दुपुरा, (15) बोरपड़ाव, (16) भूरियापुरा, (17) सुतारीपुरा, (18) केवटियापानी, (19) कोकुघट्टा, (20) पापड़ापानी, (21) सोभलियापुरा, (22) पांझरिया, (23) पलासी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. डी-15-7-2013-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 12th June 2013

No.D-15-7-2013-XIV 3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard *vide* this Department Notification even number dated June, 2013 the following area of Bagli of District Dewas shall be sub-market yard namely :—

## AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Punjapura in Tehsil Bagli of District Dewas.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub-mandi market yard namely:—
  - (1) Punjapura, (2) Bhikupura, (3) Neemkheda, (4) Ratatalai, (5) Khajukhedi, (6) Dangadungi, (7) Ahirwas khurd, (8) Beerupura, (9) Mansingh Pura, (10) Ahirwas Bujurg, (11) Kardi, (12) Laxmipura, (13) Laxminager, (14) Chandupura, (15) Boorpadav, (16) Bhuriapura, (17) Sutaripura, (18) Kavatiapani, (19) Kokughatta, (20) Papdapani, (21) Sobhaliapura, (22) Panjharia, (23) Palasi.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 28 मई 2013

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	मोहनपुरा	1.566	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.	सापन उद्वहन सिंचाई योजना.
योग : 1.566					

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आनन्द कुमार शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 29 मई 2013

क्र. 430-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	बसंतपुरा	0.154 आबादी (गावठान) शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं (मकान) भूमि को छोड़कर.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	बसंतपुरा तालाब डूब क्षेत्र हेतु

**नोट.—** भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**नवनीत मोहन कोठारी**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 31 मई 2013

क्र. -भू.अ.अ.-2012-13-प्र.क्र. अ-82 वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	गुदरी	1.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह.	गुदरी हाईकेनल योजना की नहर के प्रयोजन में आने वाली भूमि.
		कुम्हारी	1.93		
		कुलुवा	0.72		
		चीलघाट	1.46		
योग : 5.31					

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. -भू.अ.अ.-2012-13-प्र.क्र. 7-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	हरदुआ उमराव	0.10	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स), दमोह.	गर्ह वांसन हरदुआ उमराव मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
योग : 0.10					

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 6 जून 2013

क्र. 459-वाचक-प्र.क्र. -अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	लंगुर (पूरक प्रकरण) प.ह.न. 22/57	0.446	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 135990 मी. से 141220 मी. के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 6 जून 2013

प्र. क्र. 08-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (4) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	मसूरबाबड़ी	133/1	0.725	0.113	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	नहर निर्माण हेतु.
			133/2	3.775			
			133/3	0.295			

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	मसूरबाबड़ी	139	0.097	0.024	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	नहर निर्माण हेतु.
			140/1	1.323	0.121		
			134-135/1	2.115			
			134-135/2/1	1.667	0.049		
			134-135/2/2	1.011			
			134-135/2	0.805			
		देवलापुर	101/1/1	7.813			
			101/1/2	4.047			
			101/1/3	4.047	0.995		
			101/2/2	4.047			
			101/2/3	4.047			
			101/2/1	9.823			
			99	0.579	0.077		
			98	0.805	0.154		
			65-70	0.866	0.137		
			68-69	0.356	0.065		
			105/67	0.093	0.012		
			59	1.202	0.158		
			56,109,56/1	2.254	0.490		
			56,109,56/2	0.809			
			52/2,54/1/3,				
			107/54/1,	2.257	0.146		
			108/54				
			54/2,107/54/2,	0.178	0.178		
			55/2				
			22/1/1/3	6.045	0.825		
			21	1.331	0.121		
			27	13.321	0.736		
		केशलोन	54,55,65/1	12.032	0.251		
			54,55,65/2	4.047	0.125		
			54,55,65/3/1	1.011	0.065		
			54,55,65/3/2	1.011	0.049		
			54,55,65/4	2.023	0.049		
			56	0.999	0.162		
			57	3.201	0.234		
			58	1.469	0.251		
			28	2.314	0.470		
			27/5/3	1.619	0.073		
			32	2.120	0.287		
			24/1/1	2.856	0.664		
			24/1/2	2.853			
			24/2	2.856	0.664		
			24/3	2.856			

(3)	(4)	(5)	(6)
16	0.514	0.137	कार्यपालन यंत्री,
15	0.462	0.016	जल संसाधन संभाग,
17	0.798	0.154	रायसेन.
74/33	2.468	0.065	
46/1	4.047	0.170	
46/2/1	4.500	0.081	
46/2/2	1.821	0.101	
46/3	6.540	0.267	
45/1	6.891	0.090	
खजूरिया गोसाई	182,183,185,	0.457	0.061
	186/1		
	182,183,185,	0.352	
	186/2		
	179	3.605	0.360
	233/175/1	0.243	
	233/175/2	0.283	0.263
	233/175/3	0.283	
	233/175/4	0.283	
	230/175	0.162	0.041
	242/175/1	0.170	
	242/175/2	0.170	0.146
	242/175/3	0.170	
	118	0.283	0.049
	113,114,116	3.249	0.206
	120	0.283	0.089
	121	0.179	0.024
	113,114,	1.627	0.142
	116/2/2		
	113,114,	1.619	0.117
	116/2/1		
	35,36,115,	0.413	
	217/36/1		
	35,36,115,	1.619	
	217/36/2/1		0.161
	35,36,115,	2.833	
	217/36/2/2		
	237/151	1.141	0.170
	152,153/1	3.762	0.770
	152,153/2	1.214	
	154/1	1.214	0.227
	154/2	0.943	
	160	1.275	0.045

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		मेंहदी	117/89/2	1.465	0.161
			94/1/1/1	0.028	
			94/1/1/2/1	0.004	
			94/1/1/2/2	0.004	
			94/1/1/2/3	0.004	
			94/1/1/2/4	0.008	
			94/1/1/2/5	0.008	
			94/1/1/3/1	0.004	0.113
			94/1/1/3/2	0.004	
			94/1/1/3/3	0.020	
			94/1/2/1	0.028	
			94/1/2/2	0.024	
			94/1/2/3	0.025	
			94/2	0.077	
			93	0.125	0.065
			91/1	0.186	0.065
			91/2	0.182	
			99	0.451	0.081
			120/100	0.170	
			106	1.141	0.202
			103,104	2.072	0.211
			105	0.154	0.205
			101,102	2.063	
			42	0.138	0.049
			107/1	0.461	
			107/2	0.461	0.073
			107/3	1.360	
			41/1	0.341	
			41/2	0.652	
			41/3	0.331	
			41/4	0.331	0.041
			41/5	0.186	
			43/1	0.919	
			43/2	0.161	
			43/3	0.020	
			44	2.101	0.009
			38,39,137/39/1	1.914	0.240
			38,39,137/39/2	1.910	
		बम्होरी टीटोर	416/2	0.093	0.093
			414	1.145	0.332
			413	0.664	0.024
			412/1	0.886	
			412/2/1	0.146	0.134
			412/2/2	0.271	
			411/1	0.162	0.009
			411/2	0.328	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			422/109	0.129	0.049
			108,109	0.975	0.178
			110	0.182	0.009
			107	0.660	0.032
			113	1.311	0.211
			102	0.858	0.081
			88/1/1	1.113	
			88/1/2	2.023	0.085
			88/2/1	0.316	
			88/2/2	0.647	
			117/1	0.441	0.134
			85	4.577	0.205
			132/1	0.467	0.077
			132/2	0.255	
			135-136/1	0.741	
			135-136/2	0.530	0.065
			135-136/3	0.466	
			135-136/4	0.049	
			138/2/1	0.041	
			138/2/2/2/1	0.929	
			138/2/2/2/2	0.066	
			138/2/2/1	0.121	
			138/3	0.117	
			138/4	0.113	
			138/5/1	0.061	0.234
			138/5/2/1/1/1	0.109	
			138/5/2/1/1/2	0.053	
			138/5/2/1/1/3	0.259	
			138/5/2/1/2/1	1.149	
			138/5/2/1/2/2	0.243	
			138/5/2/2	0.141	
			237/1/1	0.206	
			237/1/2	0.033	0.041
			237/2	0.381	
			237/3	0.032	
			238/1	0.150	0.061
			238/2	0.040	
			239/1	0.162	
			239/2	0.267	0.121
			239/3	0.154	
			245/1	0.040	0.057
			245/2	0.109	
			247	0.372	0.077
			249/1	0.894	0.170
			249/2	0.242	
			250	0.304	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			280/1/1	0.720	
			280/1/2	0.282	
			280/1/3/1	0.336	
			280/1/3/2	0.336	0.186
			280/1/3/3	0.332	
			280/2/1	1.003	
			280/2/2	0.712	
			277/1	0.283	0.036
			277/2	0.166	
			277/3		
			278/1	0.121	0.032
			278/2	0.121	
			263/1	0.356	
			263/2	0.073	0.045
			263/3	0.081	
			265/1	0.166	0.057
			265/2	0.061	
			266/1	0.040	
			266/2	0.186	0.053
			266/3	0.142	
			267/1	0.364	
			267/2	0.405	0.158
			267/3	0.517	
			215/1	1.954	0.101
			215/2	0.733	
			217/1	0.615	0.154
			217/2	0.283	
			216	0.595	0.073
			173,174	5.835	0.558
			133/1	0.150	0.073
			133/2	0.121	
			66/134/1/1	0.889	
			66/134/1/2	3.088	0.850
			66/134/1/3	0.364	
			66/134/2	1.416	
			64/1	1.364	0.113
			64/2	2.849	
			46/1	2.703	0.368
			46/2	1.417	
			38	1.813	0.158
			37	1.411	0.138
			30,36	1.894	0.259
			28/1	1.214	0.263
			28/2	1.777	0.263

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 11 जून 2013

क्र. 6205-भू-अर्जन-01-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	बैड़ियाकलां	2.049	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	बाफला माईनर की 8 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

## संशोधित अधिसूचना

बुरहानपुर, दिनांक 12 जून 2013

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	बुरहानपुर	लालबागमाल	0.120	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण	गणपति नाका से सिन्धी बस्ती
		हमीदपुरा	1.890	विभाग, संभाग बुरहानपुर.	मार्ग निर्माण.
		एमागिर्द	2.196		
		योग :	4.206		

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 13 जून 2013

प्र. क्र. 14-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर (लौड़ी)	देवनगर	5.500	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर (लौड़ी).	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	थुराटी	2.500	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर.	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु. भू-अर्जन.

(3) भू-अर्जन के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 10 जून 2013

प्र. क्र. अ-82-12-13-4015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
- (ख) तहसील—बड़नगर
- (ग) ग्राम—टोकरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.15 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5	0.15
योग. .	<u>0.15</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बड़नगर-सुन्दराबाद-खरसौंदकला-उन्हेल मार्ग निर्माण में ग्राम टोकरा में निजी भूमि अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. अ-82-12-13-4016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
- (ख) तहसील—बड़नगर
- (ग) ग्राम—बालोदाकोरन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.09 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
649	0.05
650/1	0.03
650/2	0.01
योग. .	<u>0.09</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बड़नगर-सुन्दराबाद-खरसौंदकला-उन्हेल मार्ग निर्माण में ग्राम बालोदाकोरन में निजी भूमि अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. अ-82-12-13-4017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
- (ख) तहसील—बड़नगर
- (ग) ग्राम—नकूचाखेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.03 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
251	0.03
योग. .	<u>0.03</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बड़नगर-सुन्दराबाद-खरसौंदकला-उन्हेल मार्ग निर्माण में ग्राम नकूचाखेड़ी में निजी भूमि अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 10 जून 2013

क्र. 05-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—वारासिवनी  
(ग) ग्राम—नांदगांव, प.ह.नं. 1/20  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.108 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
155/7	0.012
169/10	0.048
169/11	0.024
169/23	0.024
योग.	0.108

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—सिरपुर नांदगांव मार्ग के नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 06-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—तिरोडी  
(ग) ग्राम—हीरापुर, प.ह.नं. 13  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.002 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
64, 66/3	0.094
62/17, 63/4	0.014
62/3 से 11 तक	0.466
62/14, 63/1	वृक्ष सहित
62/18, 65/2	0.247
66/6	
283/6, 285/6	0.085
284/3	
283/3, 285/3,	0.093
284/2	
283/2, 285/2	0.044
291/1	वृक्ष सहित
283/5, 285/5	0.077
291/3	
290/2	0.028
286	0.093
290/1	0.044
287	0.121
288/6, 289/6	0.170
288/7, 289/7	
288/5, 289/5	0.118
288/4, 289/4	0.106
288/3, 289/3	0.182
297/8	0.061
293/2, 294/1	0.189
296/2	
297/7	0.032
293/1, 296/1	0.299

(1)	(2)	(1)	(2)
288/2, 289/2	0.223	5, 6, 7, 8/1	0.069
297/3		5/10, 6, 7, 8/9	0.121
288/1, 289/1	0.041	5/9, 6, 7, 8/8	0.186
297/1		3/3, 4/2	0.004
283/1, 284,	0.462	5/8, 6, 7, 8/7	0.024
285/1	वृक्ष सहित	68/1	0.101
62/1, 62/13,	0.608	68/2	0.016
65/1, 66/4		1/1, 2/1	0.028
282/7, 285/7	0.089	69	0.611
284/4		2/2, 3, 4, 5/2	0.154
283/8, 285/8	0.016	योग. .	1.702
284/5			
योग. .	4.002		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—बालाघाट जिले में कटंगी से तिरोडी नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं हल्का पटवारी के मुख्यालय ग्राम पौनिया में किया जा सकता है।

क्र. 07-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—तिरोडी  
(ग) ग्राम—तिरोडी, प.ह.नं. 22  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.702 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/3, 2/5	0.267
68/4	0.089
65/3, 66/2	0.032

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—कटंगी से तिरोडी नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं हल्का पटवारी ग्राम तिरोडी के मुख्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 08-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—तिरोडी  
(ग) ग्राम—पौनिया, प.ह.नं. 23  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.316 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
504/5, 505	0.231
506/2	वृक्ष सहित
504/2, 503,	0.174
507/1	
498, 500/11,	0.057
499/12	

(1)	(2)	(1)	(2)
498, 500,	0.040	408/4	0.024
499/9		408/1	0.587
504/9, 505,	0.142	395/2, 409/2	0.223
506/7			वृक्ष सहित
501/1	0.032	497/2	0.016
96/1	0.008	498, 500/4	0.077
498, 500/10,	0.210	499/5	
499/11		135, 136/2	0.332
498, 500/6,	0.170	142, 143/4,	0.117
499/7		395, 409/5	
499/10, 498,	0.101	142, 143/1	0.081
500/9		395, 409/1	वृक्ष सहित
498, 500/12,	0.044	15/1	0.069
499/13		15/7	0.028
498, 500/7,	0.243	131, 133/20	0.008
499/8		137, 138/20	
498, 500/2,	0.125	132/7	0.024
499/3		132/6	0.061
464, 467/1,	0.008	132/3	0.101
465, 478/2		131, 133/12	0.166
523/8	0.036	137, 138/12	
407/2	0.138	87/1	0.061
504/8, 505,	0.190	7/4	0.377
506/6		108, 110, 111,	0.397
504/7, 505,	0.085	112, 113/2, 114/4	
506/5		107/4	0.012
405/2	0.260	98/3	0.016
458/1, 3	0.061	16/3	0.280
458/2	0.081	107/5	0.341
408/2	0.049	107/9	0.187
4048, 456/6	0.081	108, 110, 111,	0.426
404/7, 456/5	0.060	112, 113, 114/1	
404/2, 456/1	0.256	498, 500/3,	0.425
403/1, 404/1	0.312	499/4	
403/4, 404/5	0.377	498, 499, 500/1	0.045
405/1	0.020	131, 133, 137,	0.195
407/1	0.455	138/15	
	वृक्ष सहित	15/6	0.284

(1)	(2)
7/1	0.121
142, 143/5,	0.012
395, 409/6	
132/5	0.320
107/8	0.016
142, 143/11,	0.202
395, 409/12	
142, 143/2	0.114
395, 409/3	
142, 143/12	0.069
395, 409/13	
142, 143/3	0.012
395, 409/4	
97/2, 130	0.547
135, 136/1	0.061
135, 136/3	0.283
132/4	0.061
107/3	0.434
142, 143/10,	0.061
395/10, 409/11	
योग .	11.316

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—बालाघाट जिले में कटंगी से तिरोडी नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं हल्का पटवारी के मुख्यालय ग्राम पौनिया में किया जा सकता है।

क्र. 09-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—वारासिवनी

- (ग) ग्राम—मेहन्दीवाडा, प.ह.नं. 24/32  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.444 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
738	0.029
748	0.048
739/1, 2, 3	0.254
735	0.047
744/1 से 6 तक	0.064
745/1 से 4 तक	0.002
योग .	0.444

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—गर्रा-वारासिवनी महाराष्ट्र बार्डर (एमडीआर) में टोल प्लाजा के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 10-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—बैहर  
(ग) ग्राम—दमोह, सिंघनपुरी, बोरी, खुरसीपार एवं डोरली प.ह.नं. 37 एवं 38.  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—86.831 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

#### ग्राम-दमोह

446	1.890
447	1.993
443/2	2.428

(1)	(2)	(1)	(2)
448	1.720	<b>ग्राम-बोरी</b>	
444/2	0.064	1/5	0.202
444/3	0.020	1/12	0.202
444/4	0.210	1/13	0.405
445/1	0.251	1/14	0.850
445/2	0.364	1/8	0.680
445/3	0.137	1/9	0.267
445/4	0.177	1/10	1.258
305	0.157	1/6	0.574
304/1	0.028	1/7	0.405
304/2	0.068	1/11	0.607
304/3	0.032	1/3	0.728
443/1	6.916	1/4	1.699
440/1	0.607	<b>ग्राम-खुरसीपार</b>	
440/11	1.461	129	0.555
440/4	1.700	132/9	0.129
440/5	0.509	130	0.372
440/3, 9	0.405	132/1	0.809
440/6	0.854	132/2	0.141
440/7	0.405	130	0.428
440/10	0.304	130	0.145
431	0.505	131	0.133
440/12, 13, 14, 15	1.080	133/6	0.040
योग. .	24.285	127/3	0.274
<b>ग्राम-सिंघनपुरी</b>		126	0.080
220/9	0.405	116	0.060
220/13	0.405	117	0.121
207/4	0.550	110/1	0.113
207/5	0.101	110/2	0.113
207/6	0.254	109/1	0.044
207/3	0.084	109/2	0.044
121	0.060	109/3	0.040
123	0.724	112/1	0.084
246/4	0.340	43/4	0.048
योग. .	2.923	43/5	0.048
		41/3	0.222
		112/3	0.080
		105/5	0.161
		105/3	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
104	0.064	<b>ग्राम-बोरी</b>	
62/1	0.202	1/1	4.755
62/2	0.020	4/1	5.240
63/5	0.174	5	0.938
63/1	0.174	योग .	10.933
66/1	0.222	<b>ग्राम-डोरली</b>	
66/2	0.023	164	0.303
66/3	0.093	योग .	0.303
66/4	0.093	<b>ग्राम-खुरसीपार</b>	
66/5	0.093	133/1 से 14 तक	13.227
53/1	0.084	65/1	0.356
53/4	0.084	44/1	0.368
53/5	0.161	42/1	0.315
49/1	0.056	24	0.020
49/2	0.056	योग .	14.286
49/3	0.056	<b>कुल शासकीय भूमि का योग . .</b>	
43/1	0.048	<b>कुल भूमि का योग . .</b>	
43/2	0.056	45.497	
43/3	0.056	86.831	
योग . .	6.249	<b>(2) सार्वजनिक प्रयोजन—कुदरई जलाशय के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.</b>	
कुल अशासकीय भूमि का योग . .	41.334	<b>(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना बैहर में किया जा सकता है.</b>	
<b>शासकीय भूमि</b>		<b>क्र. 11-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—</b>	
<b>ग्राम-दमोह</b>		<b>अनुसूची</b>	
432/1	8.081	<b>(1) भूमि का वर्णन—</b>	
432/2, 3	1.631	<b>(क) जिला—बालाघाट</b>	
योग . .	11.331	<b>(ख) तहसील—वारासिवनी</b>	
<b>ग्राम-सिंघनपुरी</b>		<b>(ग) ग्राम—मेहन्दीवाडा, प.ह.नं. 24</b>	
208	0.056		
214	1.367		
213	1.011		
212	1.363		
122	0.226		
220/1	4.621		
योग . .	8.644		



(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.158 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा
	(हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

705/4 706/4	0.020
-------------	-------

687/4, 688/4	0.008
--------------	-------

709/2	0.065
-------	-------

708/2	0.065
-------	-------

योग.	0.158
------	-------

(1)

(2)

187/2

0.008

10/1

0.089

योग. . 1.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत वारासिवनी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी.एम. मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—पौनैरा, प.ह.नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.049 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा
	(हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

20/1	0.121
------	-------

181/1	0.081
-------	-------

11	0.352
----	-------

179/10	0.049
--------	-------

10/7	0.081
------	-------

187/3	0.081
-------	-------

179/3	0.146
-------	-------

10/4	0.041
------	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत चैन क्रमांक 2298 के स्केप से जल निकासी नहर के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—झालीवाडा, प.ह.नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.361 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा
	(हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

92/2	0.065
------	-------

463/1	0.016
-------	-------

700/1	1 कुआं
-------	--------

448/1	0.049
-------	-------

788/2	0.024
-------	-------

789/3	0.045 एक कुआं
-------	---------------

449//2	0.053 एक कुआं
--------	---------------

789/1	0.036
-------	-------

461/5	0.041
-------	-------

767/9	0.032
-------	-------

योग. . 0.361 कुआं 3 नग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत वारासिवनी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 14-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—वारासिवनी  
(ग) ग्राम—बधोली, प.ह.नं. 32  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.270 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
6/1	0.109
7/6	0.008
7/2	0.036
7/3	0.032
7/7	0.053
9/3	0.364
6/2	0.093
7/1	0.077
110	0.016
6/3	0.138
7/8	0.053
84	0.291
योग.	1.270

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत बधोली वितरक नहर के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 15-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—वारासिवनी  
(ग) ग्राम—बांसी-बकेरा, प.ह.नं. 23  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.562 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
242/3	0.214
80/2	0.093
318/2	0.073
80/4	0.036
295	0.093
80/3	0.053
योग.	0.562

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत बांसी बकेरा माईनर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 16-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—बधोली, प.ह.नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.388 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	
(1)	(2)	
272/1	0.012	
272/5	0.008	
191/1	0.010	
287/1	0.008	
272/2	0.024	एक कुआं
277	0.012	
198/5	0.024	
319	1 कुआं	
272/3	0.012	
272/6	0.041	
249	0.069	
272/4	0.012	
276	0.004	
280/3	0.152	
योग .	0.388	2 कुआं

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत वारासिवनी केनाल पर डब्ल्यू. बी.एम. मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 17-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—वारासिवनी  
(ग) ग्राम कौलीवाडा, प.ह.नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.258 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
133/2	0.012
282/2	0.012
113/5	0.008
114/1	0.032
289/1	0.012
142/1	0.049
142/2	0.045
136	0.008
278/4	0.020
143	0.028
39/4	0.032
योग .	0.258

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर वारासिवनी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी.एम. मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 18-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—वारासिवनी  
(ग) ग्राम झालीवाडा, प.ह.नं. 32  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.616 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
8/7, 10/14	0.202
39/6	0.429

(1)	(2)
618	0.162
617	0.012
8/4, 10/6	0.089
40, 41/1	0.101
619/2	0.081
614	0.069
10/2	0.283
584	0.223
619/3	0.081
613/1, 3	0.069
18/1, 39/1	0.182
580	0.552
616	0.081
योग .	<u>2.616</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत मिर्चीटोला वितरक नहर के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 19-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—वारासिवनी  
(ग) ग्राम—बकेरा, प.ह.नं. 23  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.319 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
261/5	0.016
257/4	0.012

(1)	(2)
257/6	0.012
258/5	0.020
259/5	0.020
269/6	0.024
267	0.004
269/1,	0.029
269/7	1 कुआं
277/4	0.053
127/2	0.024
278/9	0.020
246	0.040
264/3	0.045
योग .	<u>0.319 एक कुआं</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत बकेरा वारासिवनी माईनर पर डब्ल्यू. बी.एम. मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 20-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—वारासिवनी  
(ग) ग्राम—लालपुर, प.ह.नं. 33  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.165 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
716	0.012
712/4, 710	0.101 एवं 1 कुआं
698	0.158

(1)	(2)
701	0.016
912	0.024
382/3	0.089
386	0.024
389	0.012
694	0.012
648/1	0.008
1017/1	0.020
1019	0.024
1030	0.032
634	0.020
636	0.028
1018	0.085
638	0.008 एवं 1 कुआं
1035	0.032 एवं 1 कुआं
1038	0.065
625	0.020
1040	0.150
623/1	0.016
639	0.045
633, 632	0.012
624	0.016
622	0.028
591	0.024
623/2	0.020
635	0.016
631	0.024
671	0.024
320/1 708, 809 03 नग कुआं	
योग .	<u>1.165</u> एवं 6 नग कुआं

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की वारासिवनी शाखा मुख्य ब्रांच पर डब्ल्यू बी. एम. मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 21-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—खैरलांजी  
(ग) ग्राम—झिरिया, प.ह.नं. 44/3  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.339 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
331/34	0.073
362	0.041
361	0.016
363	0.041
364	0.020
365/1, 366/2	0.008
367, 368	0.036
369, 370/2	
386/4, 5	0.032
365/2, 367/3, 366/4	0.012
367, 368, 369, 370/4	0.028
372/3, 373/3	
369/3, 372/2	0.032
योग .	<u>0.339</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के अंतर्गत वारासिवनी मुख्य ब्रांच पर डब्ल्यू बी. एम. मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 22-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—खैरलांजी  
(ग) ग्राम—डोगरिया, प.ह.नं. 03  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.439 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
573/2	0.020
567/1	0.061
566/2	0.016
559/3	0.028
559/6	0.024
520/3	0.028
520/1	0.032
524	0.028
529	0.041
530/2	0.242
532/2	0.024
206/1	0.061
206/2	0.061
432	0.121
206/9	0.032
206/3	0.036
206/7	0.020
588/6	0.032
13/1	0.073
9/1	0.024
45	0.028
227/3	0.032
228	0.101
531/3	0.028
437	0.065
202/1	0.049
202/2	0.049
396/3	0.061
208	0.061
203	0.138
योग .	1.439

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के अंतर्गत वारासिवनी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 23-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—तिरोडी  
(ग) ग्राम—आजनबिहरी, प.ह.नं. 04  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.218 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
260/6	0.061
111/2	0.032
178/4	0.040
179/4	0.040
1/16	0.045
योग .	0.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत आजनबिहरी टेल माईनर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 24-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—वारासिवनी  
(ग) ग्राम—उमरवाडा, प.ह.नं. 37  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.460 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
417/2	0.020
380/3	0.243
184/2	0.016
417/5	0.020
377/1	0.004
366	0.020
382	0.085
377/2	0.016
406	0.020
184/1	0.016
योग .	0.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत वारासिवनी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 25-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—बालाघाट

- (ख) तहसील—खैरलांजी  
(ग) ग्राम—अमई, प.ह.नं. 03  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.731 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
90/1 से 4 तक 91	0.028
94, 95, 96/1	0.004
94, 95, 96/3	0.012
495/2	0.024
493/1	0.028
492/6	0.057
542/4, 543/3	0.020
546/2	0.024
92/1, 2	0.014
94, 95, 96/2	0.016
103	0.024
495/4	0.016
493/2	0.036
492/3	0.041
544/1, 2	0.053
93	0.020
102/2	0.016
164, 165/2	0.012
494/1	0.020
493/3	0.016
491/2	0.016
545/4	0.036
104	0.004
102/3	0.016
163/1, 2	0.077
494/2	0.028
493/4	0.012
542/35, 43/1	0.020
545/2	0.041
योग .	0.731

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत वारासिवनी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 26-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—वारासिवनी  
(ग) ग्राम—रेगांझरी, प.ह.नं. 34  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.617 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
244/1	0.028
248/4	0.101
251/8	0.012
259	0.016
258/1	0.012
244/2, 3, 4	0.057
250/1	0.008
257/4	0.012
257/2	0.020
258/6	0.012
245	0.024
250/2	0.053
255	0.008
258/4	0.020
262/1	0.049
284/1, 2	0.121
251/7	0.012
257/1	0.032
251/4	0.020
योग. .	<u>0.617</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत रेगांझरी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 27-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—खैरलांजी  
(ग) ग्राम—झिरिया, प.ह.नं. 44/3  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.014 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
340/5	0.014
योग. .	<u>0.014</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के अंतर्गत मुरझड वितरक नहर के तहत झिरिया माईनर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 28-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—वारासिवनी  
(ग) ग्राम—बांसी, प.ह.नं. 23  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.262 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
277/1	0.040
211	0.012



(1)	(2)
216/1	0.045
214	0.040
213	0.032
538/2	0.081
210	0.012
योग.	<u>0.262</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के अन्तर्गत बांसी माईनर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 29-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—तिरोडी  
(ग) ग्राम—बम्हनी, प.ह.नं. 04  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.380 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
121/1	0.180
110, 111, 112/4	0.120
43/7	0.080
योग.	<u>0.380</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत बम्हनी एवं गुरुकुल माईनर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 30-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—तिरोडी  
(ग) ग्राम—चिचगांव (हमेशा) प.ह.नं. 04  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.255 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
48/23	0.095
166/1	0.080
172/2	0.080
योग.	<u>0.255</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना मुख्य नहर के अंतर्गत हमेशा माईनर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 31-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—तिरोडी

(ग) ग्राम—बम्हनी, प.ह.नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.621 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
121/2	0.140
121/3	0.097
130/5	0.183
130/6	0.201
योग .	<u>0.621</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 33-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
- (ख) तहसील—कटंगी
- (ग) ग्राम—चिकमारा, प. ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.194 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
219/2	0.303
437/3	0.061
179/1	0.343 कुँआ
178/1	0.004
527/4	0.178
437/5	0.119
437/9	0.061
438/6	0.101
438/7	0.081
438/4	0.016
438/5	0.081
438/1	0.081
437/6	0.002
179/2	0.526
217	1.397
180	0.405
183	0.485
438/9	0.006
549	0.012
547	0.202
546/1	0.162
544	0.364
545	0.032
542/4	0.089
538	0.183
537	0.040
529	0.101

क्र. 32-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
- (ख) तहसील—खैरलांजी
- (ग) ग्राम—झिरिया, प.ह.नं. 44/3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.102 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
34/16	0.016
235/1	0.026
235/16	0.060
योग .	<u>0.102</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के अंतर्गत झिरिया मायनर क्रमांक-2 के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(1)	(2)
528/3	0.142
513/2	0.061
514	0.304
513/1	0.304
512/1, 2,3	0.647
502/2	0.121
500/1	0.287
500/2	0.077
502/1	0.477
499	0.105
498	0.044
497/2	0.348
439/3	0.385
439/2	0.190
439/1	0.162
438/10	0.012
438/8	0.093

योग. . 9.194 कुआं 01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—बालाघाट जिले में तहसील कटंगी से तिरोडी नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं हल्का पटवारी ग्राम तिरोडी के मुख्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 34-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—कटंगी

(ग) ग्राम—चौखण्डी, प. ह.नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.873 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
40/1	0.222 कुंआ/मकान
40/2	0.405
40/4	0.061 मकान
45/2	0.129

(1)	(2)
78	0.218
79/3	0.190
79/4	0.020
80/3	0.020
80/4	0.081
127/1	0.081
127/2	0.141
128/2	0.250
128/3	0.385
128/4	0.028
129/1	0.602
129/4	0.688
129/5	0.141
129/6	0.072
131	0.485
132/1	0.121
132/2	0.243
134	0.169
137	0.283
135	0.169
136/1	0.243
138	0.032 वृक्ष सहित
139/1	0.081
139/2	0.226
139/4	0.097
142/1	0.263
143/1	0.263
173/1	0.061
182/2	0.646 एवं कुंआ
173/2	0.081 कुंआ
182/3	0.006
182/4	0.121
183	0.094
184/1	0.010
208	0.263
213	0.182

योग. . 7.873

परिसंपत्ति

कुआं 03  
मकान 02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—बालाघाट जिले में तहसील कटंगी से तिरोडी नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं हल्का पटवारी ग्राम तिरोडी के मुख्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग			(1)	(2)	(3)
रीवा, दिनांक 11 जून 2013			835	0.401	0.038
क्र. 1273-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			839/1		
अनुसूची			839/2	0.277	0.250
(1) भूमि का वर्णन—			839/3	0.277	
(क) जिला—रीवा			840/1	0.470	0.570
(ख) तहसील—गुढ़			840/2	0.473	
(ग) ग्राम—पुरवा 381			841/1	0.465	0.280
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.900 हेक्टेयर.			841/2	0.469	
खसरा	कुल रकबा	अर्जित रकबा	842	1.910	0.650
नं.	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	843	1.991	0.100
(1)	(2)	(3)	868	0.053	0.020
559	0.101	0.070	889	0.200	0.200
560	0.656	0.110	890	0.032	0.032
561	0.101	0.020	891	0.012	0.012
563	2.772	0.540	892	0.109	0.050
567	3.257	0.954	893	0.684	0.280
568	0.235	0.120	894	0.332	0.090
569	0.210	0.050	895	0.413	0.180
570	1.133	0.450	896	0.648	0.240
573	1.230	0.407	897	0.372	0.260
818	0.967	0.016	899	0.352	0.110
819	0.547	0.240	825	0.170	0.060
820	0.579	0.540	922	0.243	0.020
821	0.065	0.010	923	0.198	0.040
822	0.959	0.070	924	0.219	0.100
826	0.336	0.260	929	0.263	0.110
827	0.336	0.020	930	0.214	0.190
828	1.173	0.510	931	0.263	0.209
829	1.133	0.371	932	0.085	0.030
830	0.081	0.030	933	0.081	0.045
831	0.239	0.118	934	0.295	0.204
833	0.259	0.101	935	0.352	0.224
834	0.490	0.050	936	0.452	0.030
			942/1	0.546	0.6370
			942/2	0.546	
			943	0.898	0.050
					योग : 10.900
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.			(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		

क्र. 1275-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़  
(ग) ग्राम—टटिहरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.385 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
12/1 क	1.971	
12/2 ख	2.642	0.340
12/2	0.684	
13	1.076	0.050
14/1	0.536	0.260
14/2	0.535	
25	0.352	0.050
27	1.655	0.320
28/1	0.142	0.040
28/2	0.016	
29/1	0.865	0.208
29/2	0.365	
30/1	0.591	0.070
30/2	0.024	
36/1	0.053	0.012
36/2	0.052	
37	4.876	0.050
38	0.518	0.040
39	1.562	0.500
55/1	0.437	0.160
55/2	0.437	
56	0.502	0.040
57/1	2.100	0.650
57/2	1.214	
70	0.032	0.003
71/1	0.069	
71/2	0.647	0.389
71/3	0.716	
109	0.478	0.030

(1)	(2)	(3)
110/1	0.117	0.080
110/2	0.118	
111/1	0.081	
111/2	0.081	0.250
111/3	0.081	
111/4	0.267	
112/1	0.061	0.070
112/2	0.250	
112/3	0.061	
136	0.198	0.013
141	0.474	0.140
142	0.198	0.120
106	0.416	0.010
144	0.830	0.010
145	0.364	0.130
146	1.104	0.350

कुल योग : 5.385

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़-मऊगंज उद्बहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1277-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़  
(ग) ग्राम—लढ़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.308 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
13	0.202	0.080
14	0.227	0.020

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
18	0.073	0.030	170	0.073	0.016
20	0.318	0.120	171	0.950	0.280
76	0.227	0.120	172	0.028	0.028
77	0.024	0.010	173	0.020	0.020
78	0.049	0.049	174	0.117	0.117
79	0.085	0.085	175	0.166	0.120
80	0.024	0.024	196	0.016	0.016
81	0.210	0.210	197	0.340	0.210
82	0.263	0.095	198	0.024	0.012
83	0.413	0.188	199	0.494	0.356
84/1	0.089	0.100	200	0.624	0.072
84/2	0.040		201	0.619	0.217
85	0.915	0.120	202	0.032	0.019
86	0.138	0.040	224	0.162	0.006
87/1	0.016	0.200	225	0.547	0.014
87/2	0.029	0.029	226	0.320	0.017
88/1	0.284	0.200	227	0.239	0.112
88/2	0.558		228	0.105	0.105
90/2	0.069	0.048	229	0.445	0.160
91	0.024	0.024	234	0.777	0.240
92	0.259	0.235	235	0.081	0.081
95	0.020	0.020	236	0.097	0.097
96	0.036	0.020	237	0.150	0.150
97	0.085	0.085	238/1	0.165	0.026
98	0.210	0.175	238/2	0.008	
104	0.247	0.180	239	0.372	0.200
105	0.040	0.010	240	0.360	0.180
106	0.020	0.020	241	0.563	0.200
107	0.049	0.049	242	0.085	0.085
109/1	0.069	0.107	243	0.040	0.040
109/2	0.048		244	0.433	0.433
110/1	0.040		कुल योग : 7.308		
110/2 क	0.036	0.052	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़-मरुगंज उद्बहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.		
110/2 ख	0.037		(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
121	0.117	0.020	क्र. 1279-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		
122	0.271	0.004			
144	0.295	0.040			
154	0.271	0.100			
155	0.028	0.006			
156	0.397	0.016			
157	0.450	0.400			
158	0.040	0.040			
159	0.971	0.138			
160	0.263	0.263			
161	0.032	0.032			
162	0.073	0.020			

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़  
(ग) ग्राम—महगना  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.623 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
152	1.281	0.012
155	0.057	0.040
156	0.276	0.150
157	0.316	0.208
158	0.398	0.220
159	0.093	0.016
222	0.024	0.013
223	0.287	0.016
225	0.142	0.030
226	0.073	0.073
227	0.073	0.070
228	0.073	0.014
233/1	0.231	0.190
233/2	0.231	
234	0.727	0.070
272	0.547	0.192
273	0.709	0.290
274	0.206	0.019

कुल योग : 1.623

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1281-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के

लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़  
(ग) ग्राम—गेरुआरी 170  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.105 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
80	0.648	0.350
108	0.162	0.030
109/2	0.241	0.150
111	0.247	0.030
112	0.749	0.270
113	0.146	0.146
327	0.109	0.030
228	0.579	0.160
329	0.121	0.050
330	0.040	0.030
331	0.494	0.055
332	0.053	0.053
333	0.251	0.230
334	0.223	0.002
336/1	0.061	0.008
336/2	0.056	
337	0.032	0.032
338	0.036	0.036
339	0.097	0.020
350	0.210	0.036
355	0.053	0.026
356	0.069	0.069
357	0.069	0.069
358	0.077	0.051
359	0.117	0.080
360	0.061	0.061
361	0.053	0.040
362	0.295	0.020
368/1	0.097	0.004
368/2	0.089	0.004
369/1	0.097	0.080
369/2	0.089	0.050
370	0.077	0.077
371	0.186	0.140
372	0.202	0.120

संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़  
(ग) ग्राम—नरहा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.855 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
115	0.930	0.028
114/1	0.468	0.045
114/2	0.321	
116	0.910	0.036
117	0.036	0.036
118		0.005
119/1	0.125	0.253
119/2	0.178	
119/3	0.025	
120	0.065	0.065
121	0.073	0.015
122/1	0.036	0.123
122/2	0.154	
123	0.016	0.016
124	0.085	0.056
126	0.049	0.037
127	0.454	0.150
96	0.425	0.104
95	0.821	0.219
130/1	0.393	0.128
130/2	0.405	
131	1.060	0.010
132	0.413	0.371
133	0.466	0.260
134/1	0.404	0.072
134/2	0.417	
198	0.543	0.016
199	1.350	0.380
200	1.036	0.240
201	0.619	0.140
202/1	0.295	0.072
202/2	0.294	
203/1	0.368	0.073
203/2	0.369	

कुल योग : 6.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1283-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894





(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—दादर		
			(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.468 हेक्टेयर.		
179/1	0.046	0.020	खसरा	कुल रकबा	अर्जित रकबा
179/2	0.047		नं.	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)
180	0.809	0.016	(1)	(2)	(3)
186	0.154	0.020	6	0.733	0.305
187	1.473	0.400	7/1	0.610	0.450
188/1	0.271		7/2	0.121	
188/2	0.267	0.040	9	0.275	0.100
188/3	0.162		17/1	0.433	0.365
189/1	0.615		17/2	0.433	0.365
189/2	0.615	0.660	18/1	0.016	0.016
189/3	0.619		18/2	0.012	0.012
189/4	0.620		19/1	0.204	0.280
193	1.768	0.400	19/2	0.205	
194	0.117	0.060	20/1	0.220	0.220
195/1	0.105	0.040	20/2	0.221	
195/2	0.267		21	0.178	0.150
197	0.199	0.022	22	0.077	0.052
198	0.178	0.178	23	0.069	0.050
199	0.190	0.020	24	0.186	0.120
कुल योग : 4.433			29	0.049	0.004
			34	0.198	0.090
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.			35	0.016	0.004
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			39	0.129	0.020
			कुल योग : 2.468		

क्र. 1287-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 3 जून 2013

क्र. भू-अर्जन-री. 01-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन कृषि सिंचाई हेतु नहर निर्माण के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर  
(ख) तहसील—मुंगावली  
(ग) नगर/ग्राम—वर्दी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.908 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
89/1 क	0.165
89/1 ख	0.165
100/1 क	0.160
107/2	0.225
136/1	0.060
48/2	0.051
64/मिन 2	0.082
योग.	0.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण—कृषि सिंचाई हेतु नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 6 जून 2013

प्र. क्र. 04-अ-82-10-11-खजूरीया, सुल्तानजहांपुर, मुरमार  
2010-11-भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज.—चूंकि, राज्य शासन को

इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन  
(ख) तहसील—गैरतगंज  
(ग) नगर/ग्राम—सुल्तानजहांपुर, खजूरीया, मुरमार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.885 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
189	0.283	0.040
187	0.882	0.123
186/1	0.834	0.221
186/2	0.838	0.481
199, 120	0.595	0.020
185/5	1.813	0.032
184/2/4	0.485	0.094
184/2/5	0.809	0.085
208, 209, 210, 211, 121, 213, 276/208/3	1.214	0.161
220, 221, 222, 224/1/1	3.978	0.081
219/2	3.406	0.253
218/2	1.092	0.078
218/1	1.214	0.078
227, 229, 230, 231/2	1.689	0.053
228	1.619	0.053
231/1	1.942	0.012
242/2	3.769	0.045
243	2.614	0.085
244, 245	0.988	0.090
266	0.496	0.009
264/6, 264/5	4.504	0.138
264/2	4.504	0.229
264/3	1.619	0.041
256, 257, 258, 259, 261, 262, 263	2.534	0.052
94/1/2	1.097	0.045
254/1/1, 255/1	1.720	0.184

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
183/1/1/1	1.271	0.182	34/1	1.110	0.165
183/2/1/1	0.687	0.010	31/1	1.619	0.028
183/2/1/2	0.405	0.110	31/2/2	2.023	0.081
18, 19/4,	1.271	0.113	21/1, 22/1, 24/1/1	1.991	0.065
11/1	0.808	0.173	21, 22, 23, 24/2	1.691	0.036
8, 9, 10/3, 11/2	0.550	0.032	312/28/2	0.647	0.133
13, 17/1/1	2.831	0.234	30/2	0.351	0.009
4, 6, 7/4, 1/1	0.202	0.360	245, 246, 249/2	1.655	0.312
4, 6, 7/3	1.011	0.097	245, 246, 249/4	1.655	0.121
4, 6, 7/2	0.405	0.041	250/1/2/3	1.452	0.100
4, 6, 7/1	0.404	0.028	250/1/2/2	0.303	0.085
		योग : 4.163	251/2/3/1	1.010	0.143
<b>ग्राम—खजूरिया</b>			250/1/2/1	0.566	0.100
7/1	4.853	0.032	167, 168	5.119	0.303
7/2	3.135	0.101	169, 176, 177/1/1,	2.473	0.113
		योग : 0.133	177/2		
<b>ग्राम—मुरपार</b>			174/2, 175	1.215	0.101
292	0.567	0.041	258/1/3	1.346	0.171
291/2	3.643	0.226	99, 100, 101/1,	4.423	0.323
290/2	2.622	0.141	102, 103, 104,		
222/1/1, 222/1/2	0.547	0.032	105, 106, 107		
223/2	0.567	0.012	58/2	2.366	0.300
224/2/1,	1.696	0.300	62/1	0.809	0.060
224/3,	1.214	0.100	62/2	2.376	0.142
232, 233	1.647	0.028	339/284/2	3.048	0.384
228, 229, 230	0.406	0.125	282/1/3	0.996	0.141
247	2.521	0.294	282/1/2	0.405	0.028
225, 226, 227	2.133	0.024	282/2	6.070	0.158
286/1	1.239	0.238	282/1/5	0.995	0.061
339/284/2	3.048	0.384	278	0.789	0.032
285/1	0.405	0.025	284/2	6.353	0.261
254	0.263	0.004	105, 108,	1.347	0.040
256/1/1	2.306	0.218	113/258/1/2		
256/1/2	1.214	0.218	341/312, 28/1	0.089	0.080
257	4.497	0.303	249	2.844	0.160
259/1/3	0.486	0.239			योग : 8.589
259/1/1	2.469	0.061			महायोग : 12.885
259/1/2	2.469	0.182			
260/1	3.387	0.214			
49/3, 321/49	6.376	0.506			
48	2.386	0.065			
322/52	0.356	0.032			
53/1	1.250	0.226			
34/2/1	0.223	0.115			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का स्वरूप—टेहरी जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 10 मई 2013

प्र. क्र. 61-अ-82-2012-13-क्र. 989-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—मुण्डला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.315 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
25/3	0.013
95, 96, 97	0.179
98/1	0.165
105	0.010
107/3	0.215
107/4	0.158
114/2	0.014
114/3	0.170
114/4	0.042
114/7	0.046
117/2, 118/2	0.121
118/4 क	0.020
130/7	0.081
133/4	0.049
141/4	0.032
योग . .	1.315

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की बंजारी वितरण शाखा एवं माईनर नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 28 मई 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उसके सामने वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—कुरवाई
- (ग) ग्राम—कुरवाई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.439 हेक्टर.

भूमि सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
1348/2	0.021
1377/2/1	0.300
1378/2/1	0.108
1377/2/2	0.003
1378/2/2	0.007
योग . .	0.439

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बी.ओ.टी. योजनांतर्गत बीना-कुरवाई-सिरोंज (राज्य मार्ग क्र. 14) के उन्नयन में कुरवाई मुख्य सड़क निर्माण बाबत.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आनन्द कुमार शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 11 जून 2013

भू-अर्जन-प्र. क्र.-06-अ-82-2012-13-शुद्धि-पत्र.—ग्राम गुलगांव रै. तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की कृषि भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग-1) के पृष्ठ क्रमांक 298, दिनांक 18 जनवरी 2013 को त्रुटिपूर्ण होने से संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ा जावे:—

#### कृषि-भूमि

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि		संशोधित प्रविष्टि	
सर्वे नम्बर	रकबा	सर्वे नम्बर	रकबा
168/1	0.64	168/1	0.40
168/2	0.95	168/2	0.28
—	—	168/5	0.55
—	—	168/6	0.36
169/1	1.58	169/1	0.59
169/2	0.59	169/2	1.58
206	0.36	206/1	0.36
210/1	1.19	210/1	0.88
—	—	210/3	0.31
298	0.10	298/1	0.10

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**नीरज दुबे**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 11 जून 2013

क्र. 6207-भू-अर्जन-01-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा  
(ख) तहसील—सिराली  
(ग) ग्राम—बैड़ियाकलां  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.389 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
218/3	0.048
220/2	0.081
220/3	0.150
150/2	0.142
150/4	0.008
150/3, 150/8, 150/9, 150/10	0.146
148	0.150
220/1	0.150
220/4	0.134
222/1	0.178
150/6	0.081
150/7	0.040
149/2	0.081
योग . .	1.389

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाफला माईनर की 10 एल सब-माईनर के निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सुदाम खांडे**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 10 जून 2013

प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर  
(ख) तहसील—पाटन  
(ग) ग्राम—बेलखेडा (बंदो. नं. 43, प.ह.नं. 35/79)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.64 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
493/2, 3	0.10
493/4	0.08
379	0.01
377/1	0.45
योग . .	0.64

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सुरहिया सिमरिया-पड़रिया-धमनी-सिंगौरी मार्ग.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 24-अ-82-2012-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर  
(ख) तहसील—पाटन  
(ग) ग्राम—सिमरा (बंदो. नं. 418, प.ह.नं. 15/34)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.405 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1	0.10
8	0.03
10	0.10
15/1	0.04
16	0.01
17	0.02
7/1	0.01
6	0.05
18	0.03
1	0.06
15/3	0.02
15/4	0.002
15/5	0.02
19/1	0.02
19/2	0.02
20	0.02
21/1	0.02
43	0.04
53	0.03
55	0.003
58	0.07
110	0.04
111/1	0.01
56	0.05
109/1	0.08
109/3	0.01
108/1	0.01

(1)	(2)	अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-	
		अनुसूची	
		(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि	
		(क) जिला—शिवपुरी	
		(ख) तहसील—नरवर	
		(ग) नगर/ग्राम—रौनीजा	
		(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.43 हेक्टेयर	
		खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
		(1)	(2)
107	0.06	102	0.02
93/1	0.01	103	0.06
92	0.06	105	0.05
93/2	0.06	106	0.02
93/4	0.01	107	0.02
91	0.03	108	0.01
90	0.02	109	0.04
76	0.05	160	0.03
109/4	0.01	161	0.01
109/5	0.02	198	0.04
109/6	0.05	199	0.03
73	0.01	200	0.01
72	0.04	201	0.02
71	0.02	239	0.03
67	0.01	240	0.02
64	0.03	243	0.02
	योग . . 1.405	277	0.02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बेलखाडू-सरोद मार्ग.		278	0.03
		279	0.02
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		280	0.01
		281	0.02
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		344	0.17
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		347	0.04
		348	0.03
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश		349	0.07
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,		368	0.03
राजस्व विभाग		370	0.03
शिवपुरी, दिनांक 11 जून 2013		371	0.07
क्र. 11-भू-अर्जन-2012-13-812.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन			



(1)	(2)	(1)	(2)
372	0.01	1307	0.07
413	0.03	1308	0.08
414	0.03	1310	0.07
415	0.02	1311	0.07
416	0.03	1317	0.01
537	0.03	1323	0.08
539	0.05	1324	0.09
540	0.01	1325	0.10
541	0.01	1362	0.14
542	0.01	1418	0.02
543	0.01	1419	0.11
544	0.03	1422	0.08
608	0.06	1424	0.15
613	0.05	1425	0.12
614	0.02	1783	0.16
624	0.14	1805	0.01
626	0.02	1807	0.01
634	0.03	1811	0.06
635	0.02	1812	0.15
636	0.07	1813	0.11
637	0.02	1819	0.09
638	0.07	1820	0.08
641	0.20	1821	0.01
642	0.14	1822	0.05
643	0.05	1831	0.06
644	0.02	1827	0.12
1257	0.06	1836	0.10
1258	0.05	1846	0.10
1259	0.04	1847	0.13
1260	0.02	1848	0.01
1264	0.01	1873	0.14
1265	0.10	1875	0.02
1270	0.01	1876	0.12
1271	0.05	1877	0.18
1272	0.04	1881	0.09
1273	0.06	1908	0.12
1289	0.11	1910	0.12
1306	0.02	1911	0.08

(1)	(2)	(1)	(2)
1921	0.14	2675	0.05
1924	0.06	2676	0.04
1925	0.09	2678	0.10
1970	0.12	2688	0.10
1971	0.10	2689	0.10
1974	0.01	2690	0.14
1989	0.01	2699	0.03
1994	0.32	2702	0.15
2000	0.18	योग. . 9.43	
2005	0.02	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत डी-5 वितरिका की 4 एल.ए. एवं 5 आर. ए. के निर्माण हेतु.	
2448	0.11	(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
2449	0.07	क्र. 813-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
2452	0.07	अनुसूची	
2453	0.11	(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि	
2454	0.02	(क) जिला—शिवपुरी (म. प्र.)	
2455	0.10	(ख) तहसील—नरवर	
2456	0.04	(ग) नगर/ग्राम—दाबरअली	
2457	0.02	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.50 हेक्टेयर.	
2514	0.18	खसरा क्षेत्रफल	
2519	0.05	नं. (हे. में)	
2517	0.03	(1) (2)	
2518	0.03	49 0.15	
2520	0.01	430/2 0.35	
2539	0.01	योग. . 0.50	
2540	0.08	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय नहर दांयी तट नहर (लालपुर पिकअप वीयर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाली निजी भूमि पर स्थित संपत्तियों की अर्जन हेतु.	
2541	0.14	(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
2604	0.08		
2607	0.02		
2644	0.06		
2645	0.03		
2646	0.01		
2649	0.13		
2650	0.07		
2651	0.06		
2653	0.01		
2672	0.02		
2673	0.03		
2674	0.05		

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-13-814.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरबर

(ग) ग्राम—झण्डा

(घ) भूमि का क्षेत्रफल—1.75 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
449	0.12
495	0.12
496	0.23
962	0.06
963	0.10
964	0.01
965	0.07
979	0.02
980	0.02
966	0.13
981	0.03
982	0.03
983	0.03
984	0.03
993	0.16
995	0.14
996	0.10
998/1	0.04
998/2	0.08
999	0.07
1709	0.03
225	0.08
350	0.05

कुल योग. . . 1.75

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना की दांयी तट नहर की शाखा नहर डी-5 से निकलने वाली झण्डा न्यू माइनर के निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 जून 2013

क्र. एफ . . . .-भू-अर्जन-13-328.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—बन्दरिया

(घ) क्षेत्रफल—11.792 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
116	0.282
117	3.739
138/1	0.800
139	0.272
141	2.174
142	1.097
173/117	3.428
निजी खाता भूमि योग . .	11.792

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर बांध योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.